

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 125

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ, 1943 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

बिहार में पर्यटन का विकास

125. श्री महाबली सिंह:

श्रीमती रमा देवी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का बिहार में पर्यटन का विकास करने और इसे प्रोत्साहन देने का विचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई या की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए चिह्नित स्थानों के नाम क्या हैं और चिह्नित पर्यटन स्थलों के विकास और उन्नयन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है;
- (घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है आदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) क्या केन्द्र सरकार इन पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पूरा खर्च वहन कर रही है या इसे साझेदारी के आधार पर किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : पर्यटन मंत्रालय भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है और अपनी चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में, बिहार सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों के संवर्धन के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से भी संवर्धन किया जाता है। इसके अलावा, भारत और विदेशों में स्थित भारतपर्यटन कार्यालय विभिन्न राज्यों की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों का संचालन करते हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार देश में पर्यटन के समग्र संवर्धन और अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ

शासित प्रदेशों को अपनी योजनाओं जैसे स्वदेश दर्शन, तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद), केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से परियोजनाओं की पहचान की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, योजना दिशानिर्देशों का पालन करने और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

(घ) बिहार राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित जानकारी **अनुबंध** में दी गई है।

(ड.) स्वदेश दर्शन योजना: पर्यटन मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

प्रशाद योजना : भारत सरकार द्वारा 100%वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

योजना के दिशा-निर्देशों के तहत, पर्यटन मंत्रालय मेलों और त्योहारों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को प्रति वित्तीय वर्ष 50 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

बिहार में पर्यटन का विकास के संबंध में दिनांक 19.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 125 के भाग (घ) के उत्तर में विवरण।

स्वदेश दर्शन, तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता और आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) के तहत बिहार राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं

### स्वदेश दर्शन योजना

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	परिपथ का नाम और वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु.)	निर्मुक्त धनराशि (रु.)
1.	बौद्ध परिपथ (2016-17)	बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	98.73	78.91
2	आध्यात्मिक परिपथ (2016-17)	कांवड़िया मार्ग का एकीकृत विकास: सुल्तानगंज-मोजमा-बांका।	44.76	42.52
3	आध्यात्मिक परिपथ (2017-18)	मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास।	47.52	38.02
4	ग्रामीण परिपथ (2017-18)	गांधी परिपथ का विकास: भित्तिहारवा-चंद्रहिया-तुर्कोलिया	44.65	35.72
5	तीर्थकर परिपथ (2016-17)	वैशाली - आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास ।	37.19	26.19
6	बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ (2018-19)	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी-गया, लखनऊ-अयोध्या-लखनऊ, गोरखपुर - कुशीनगर; कुशीनगर-गया-कुशीनागर में मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	17.93	12.29

तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)

(राशि करोड़ में)

परियोजना संख्या	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित लागत (रु.)	निर्मुक्त धनराशि (रु.)
1	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में	2014-15	4.27	2.91

	मूलभूत सुविधाओं का विकास			
2	पटना साहिब में विकास	2015-16	41.54	33.23

बिहार में विगत तीन वर्षों के दौरान मेले एवं उत्सवों एवं पर्यटन से संबंधित आयोजन हेतु राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता के अंतर्गत मेलों एवं उत्सवों की सूची

(लाख रुपए में)

वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	निर्मुक्त धनराशि
2019-20	2019-20 में बिहार राज्य में मेलों और त्योहारों के आयोजन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (i) सोनपुर मेला और (ii) राजगीर महोत्सव	50.00	50.00

\*\*\*\*\*